



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 16 जनवरी, 2023

पौष 26, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 671/23-2-2023-70(सा0)-22

लखनऊ, 16 जनवरी, 2023

अधिसूचना

प0आ0-37

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला जौनपुर में गोमती नदी पर सरोज बड़ेवर एवं भितरी घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथादर्शित सीमाओं के भीतर जिला जौनपुर में सरोज बड़ेवर एवं भितरी घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं;

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से जिला जौनपुर में सरोज बड़ेवर एवं भितरी घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, जौनपुर-गाजीपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर में निहित होगा।

### अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर पर परगना का नाम	नदी के दोनों किनारों पर ग्राम के नाम	नदी, जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम
1	2	3	4	5
जौनपुर	केराकत- केराकत	1-सरोज बड़ेवर 2-भितरी घाट	गोमती नदी	सरोज बड़ेवर घाट एवं भितरी घाट के मध्य नौघाट

		नौघाट की सीमा		
नौघाट की श्रेणी	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
6	7	8	9	10
—	उमानाथ सेतु केराकत	3.00 कि०मी०	कीनाराम बाबा सेतु	6.00 कि०मी०

आज्ञा से,  
अजय चौहान,  
प्रमुख सचिव-II।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 671/XXIII-2-2023-70(SA.)-22, dated January 16, 2023 for general information :

No. 671/XXIII-2-2023-70(SA.)-22

*Dated Lucknow, January 16, 2023*

WHEREAS, the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Gomti River at Saroj Badewar and Bhitari Ghat in district Jaunpur;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. 17 of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Saroj Badewar and Bhitari Ghat in district Jaunpur within its limits as shown in the Schedule below;

Under section 6 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Saroj Badewar and Bhitari Ghat in district Jaunpur shall vest in the Superintending Engineer, Jaunpur-Ghazipur Circle, Lok Nirman Vibhag, Jaunpur.

#### SCHEDULE

Name of district	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of villages on both banks of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Jaunpur	Kerakat-Kerakat	1. Saroj Badewar 2. Bhitari Ghat	Gomti River	Saroj Badewar and Bhitari Ghat

		Limit of Ferry		
Class of Ferry	Upstream	Distance	Downstream	Distance
6	7	8	9	10
—	Umanath Setu Kerakat	3.00 Km.	Keenaram Baba Setu	6.00 Km.

By order,  
AJAY CHAUHAN,  
Pramukh Sachiv-II.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1200 राजपत्र-2023-(1950)-599+50+5=654 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।